



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83]
No. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1979/माघ 30, 1900
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1979/MAGHA 30, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

बाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहायिता मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1979

(तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण)

का० जा० 100(अ).—तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3
तथा 4 के साथ पठित, यथा संशोधित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975
(1975 का 4) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
केन्द्रीय सरकार 1 जनवरी, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए
तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नोक्त को एतद्वारा नियुक्त करती
है:—

1. श्री एस० चक्रवर्ती, अध्यक्ष
अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड,
लक्ष्मीपुरम, गुन्दूर-
522002।

धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित।

2. श्री ज्योतिर्मय बसु, सदस्य (लोक सभा
संसद सदस्य (लोक द्वारा निर्वाचित)
सभा), 15 तालकटोरा
रोड, नई दिल्ली।
स्थायी पता:
19, आर्लांगज, स्टेशन
रोड, कलकत्ता-19
(प० बंगाल)
3. श्री पी० पार्थसारथी, सदस्य (लोक सभा
संसद सदस्य (लोक द्वारा निर्वाचित)
सभा), 1, अन्तर
मन्तर रोड, नई
दिल्ली।
स्थायी पता:
कोडूर, पी० आ० रेलवे
स्टेशन, राजमपेट,
तालुक-कुड्डापाह
जिला, आन्ध्र प्रदेश।
4. श्री मनुभाई पटेल, सदस्य (राज्य सभा
संसद सदस्य (राज्य द्वारा निर्वाचित)
सभा) लाजपत भवन,
लाजपत नगर, नई
दिल्ली।
स्थायी पता:
लाजपत भवन, हरली
रोड, बड़ोदा-390006

अधिसूचना सं०
का० जा० 9 (अ)
दिनांक 2-1-
1979 द्वारा पहले
ही नियुक्त हो
गए हैं।

- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के अधीन नियुक्त।
5. डा० डब्ल्यु० जी० सदस्य कृषि से सम्बन्धित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
वास्तुजकर, निदेशक, तम्बाकू, विकास निवेश, आसम, 3-ए एलडम्स रोड, तेवनपेट, मद्रास-600018।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (2) के अधीन नियुक्त।
6. श्री अरुण कुमार, उप सचिव, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली। वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (3) के अधीन नियुक्त।
7. श्री एस० गुरुमूर्ति, सदस्य निदेशक, वित्त प्रभाग, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली। वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (4) के अधीन नियुक्त।
8. श्री एस० के० सरकार सदस्य मधुसूत सचिव, औद्योगिक विकास विभाग नई दिल्ली। औद्योगिक विकास से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (5) के अधीन नियुक्त।
9. डा० एन० सी० सदस्य गोपाळाचारी, निदेशक केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजा-मुन्नी-4। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (6) के अधीन नियुक्त।
10. श्री एन० अंजनेयुलु सदस्य नायडू, अपर निदेशक, कृषि, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (6क) के अधीन नियुक्त।
11. श्री एच० आर० शाह सदस्य अपर निदेशक, कृषि (विस्तार), गुजरात सरकार, अहमदाबाद। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (7) के अधीन नियुक्त।
12. कृषि निदेशक, कर्नाटक सरकार, बंगलौर। कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त।
13. श्री बी० बी० शिवैया, सदस्य महासचिव, भारतीय तम्बाकू उपज कर्ता संगम, मराकोडूर, पो० धा०, छेत्रोक्कु से होकर, जिला गुन्दूर। तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. श्री पी० अमरैया, सदस्य भागीदार, मैसर्स गुडरी कोटय्या एण्ड कं०, संगडूर, प्रोगोले, जिला प्रकासम, आंध्र प्रदेश। तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. श्री जी० रामास्वामी सदस्य रेड्डी, विधायक पञ्च-कुरापट्टु निर्वाचन क्षेत्र, गुन्दूर जिला (आंध्र प्रदेश)। तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16. श्री विठ्ठलभाई छोटा-भाई पटेल, ग्राम तथा पो० धा० मेहालव तालुका भान्मद, जिला खेड़ा, (गुजरात)। तम्बाकू उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
17. श्री मद्दा लक्ष्मीय्या, सदस्य मैसर्स मद्दी लक्ष्मीय्या एण्ड कं० प्रा० लि० चिन्नकासुपेट, गुन्दूर जिला (आंध्र प्रदेश)।
18. श्री जी० बी० रघुय्या, सदस्य विधायक, मैसर्स जी० बी० रघुय्या दोबैको एक्सपोर्टर्स प्रा० लि० 7वीं लाइन, चन्द्रमौली नगर, गुन्दूर (आंध्र प्रदेश)।
19. श्री गार० मन्नाशिवराय, निदेशक, मैसर्स श्री जयलक्ष्मी टोबैको कं० (प्रा०) लि०, गुन्दूर।
20. अध्यक्ष, सिगरेट विनिर्माता संगम, बम्बई। तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
2. भारत के राजपत्र दिनांक 28-1-1978 में का० धा० 244 के रूप में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 11-1-78 की अधिसूचना के द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त दो सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 10 जनवरी, 1980 तक पद पर बने रहेंगे।
21. डा० आर० एल० सदस्य नायपाल, कृषि (बाग-बानी) के संयुक्त निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, पूना-1। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

22. डॉ० अनिरुद्ध मिश्र, सदस्य
उड़ीसा कृषि तथा
प्रौद्योगिकी विद्या-
लय के सहाय्य
विज्ञान विभाग के
प्राध्यापक तथा विभाग
अध्यक्ष, भुवनेश्वर।

उड़ीसा सरकार का
प्रतिनिधित्व करने
के लिए।

Appointed under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

6. Shri Arun Kumar, Member
Deputy Secretary,
Department of Com-
merce New Delhi. To represent the
Ministry dealing
with Commerce.

Appointed under sub-clause (iii) of Clause (c) of sub-section (4) of section 4.

7. Shri S. Gurumurthy, Member
Director, Finance
Division Department of
Commerce, New Delhi. To represent the
Ministry dealing
with Finance.

Appointed under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

8. Shri S. K. Sarkar, Member
Joint Secretary, Deptt.
of Industrial Develop-
ment New Delhi. To represent the
Ministry dealing
with Industrial
Development.

Appointed under sub-clause (v) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

9. Dr. N. C. Golpalachari Member
Director, Central Tobac-
co Research Institute,
Rajahmundry — 4. To represent the
Indian Council
of Agricultural
Research.

Appointed under sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

10. Shri N. Anjaneyulu Member
Naidu, Addl. Director.
Agriculture, Govt. of
Andhra Pradesh Hyderabad. To represent the
Govt. of Andhra
Pradesh.

Appointed under sub-clause (vi) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

11. Shri H. R. Shah, Member
Additional Director of
of Agriculture (exten-
sion) Govt. of Gujarat
Ahmedabad. To represent the
Government of
Gujarat

Appointed under sub-clause (vii) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

12. Director of Agriculture, Member
Govt. of Karnataka, Bangalore. To represent
Govt. of Kar-
nataka.

Appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4.

13. Shri B. V. Siviah, Member
General Secretary
Indian Tobacco Growers
Association, Narako-
dur P. O., Via Chebrolu
Guntur Distt. To represent
the growers of
tobacco.

14. Shri P. Amraiah, Member
Partner, M/s. Guduri
Kotaiah & Co., Tangu-
rur, Ongole, Prakashm
Distt. Andhra Pradesh. To represent
the growers
of tobacco.

[क्राइल सं० 8/22/78-ई० पी० (एफ़ी-6)]

सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 1979

TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL

S. O. 100 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), as amended, read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoint the following as Members of the Tobacco Board with effect from 1st January, 1979 for a period of three years :

1. Shri S. Chakravorthy, Chairman
Chairman, Tobacco
Board, Lakshmirpuram
Guntur —522 002.

Elected under clause (b) of sub-section (4) of section 4.

2. Shri Jyotirmoy Bosu, Member (elected
Member of Parliament by the Lok
(Lok Sabha), 15 Tal-
katora Road, New Delhi.
Permanent address :
19 Ballygunge Station
Road, Calcutta-19
(West Bengal).

3. Shri P. Parthasarathy, Member (elected
Member of Parliament by the Lok
(Lok Sabha), 1 Jantar
Mantar Road, New
Delhi. Permanent
address : Kodur, P. O.,
Railway Station Raj-
ampet, Tq. Cuddapah
Distt., (Andhra Pra-
desh).

4. Shri Manubhai Patel Member (elected
Member of Parliament by the Rajya
(Rajya Sabha) Lajpat
Bhawan, Lajpat
Nagar, New Delhi.
Permanent address :
Lajpat Bhawan, Harni
Road, Baroda —
390 006.

Already
appointed
vide
Notification
No. S. O.
9(E) dated
2-1-1979.

Appointed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (4) of section 4.

5. Dr. W. G. Walunjkar Member
Director, Directorate of
Tobacco Development
3—A Eldams Road,
Teynampet, Madras—
600 018. To represent the
Ministry dealing
with Agriculture.

- [File No. 8(22)/78-EP (Agri.vi)]
Suresh Kumar, Joint, Secy.